

तुरंत रिलीज के लिए

## ब्रैम्पटन में काउंटडाउन टू कोलिशन!

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (13 मई, 2022) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन का इकोनॉमिक डिवेलपमेंट ऑफिस (ई.डी.ओ.) (Economic Development Office) (EDO), बुधवार, 18 मई को, शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक, द रोज़ ब्रैम्पटन (The Rose Brampton) में, [काउंटडाउन टू कोलिशन \(Countdown to Collision\)](#) की मेजबानी करने के लिए उत्साहित है।

टोरोंटो में कोलिशन कान्फ्रेंस (Collision Conference) की तैयारी करते हुए, ब्रैम्पटन को कॅनेडा के छह शहरों में से एक के तौर पर चुना गया था, जो 20 से 23 जून तक टोरोंटो में कान्फ्रेंस से पहले, विचार-विमर्श करने और टेक ईकोसिस्टमों को इकट्ठे लाने के लिए, व्यक्तिगत कार्यक्रम की मेजबानी करेगा।

इस मुफ्त काउंटडाउन टू कोलिशन (Countdown to Collision) कार्यक्रम में, आईज़ैक ओलोऑलाफे जूनियर (Isaac Olowolafe Jr.) के साथ फायरसाइड चैट होगी और वेस हॉल (Wes Hall) मुख्य वक्ता होंगे, उसके बाद रिसेप्शन और ब्रैम्पटन के स्टार्ट अप्स कम्युनिटी के मेम्बरों के साथ नेटवर्किंग अवसर पेश किया जाएगा।

[आईज़ैक ओलोऑलाफे जूनियर \(Isaac Olowolafe Jr.\)](#), ड्रीम मेकर वेंचर्स (डी.एम.वी.) (Dream Maker Ventures) (DMV) के फाउंडर और जनरल पार्टनर हैं। यह टोरोंटो की शुरुआती वेंचर कंपनी है। वे अवॉर्ड-विजेता रियल एस्टेट उद्यमी, एंजल निवेशक और समाजसेवक भी हैं। [वेस हॉल \(Wes Hall\)](#), कॅनेडियन काउंसिल ऑफ बिजनेस लीडर्स अगेंस्ट एंटी-ब्लैक सिस्टेमिक रेसिज्म (Canadian Council of Business Leaders Against Anti-Black Systemic Racism) और ब्लैकनॉर्थ इन्शीएटिव (BlackNorth Initiative) के फाउंडर और चेयरमैन हैं। हॉल, ड्रैगन्स डेन (Dragon's Den) के सबसे नए मेम्बर भी हैं और मर्जर्स तथा एक्विजिशनस में अपनी वर्षों की मुहारत, डेन और कॅनेडा के भविष्य के उद्यमियों के लिए लेकर आते हैं।

[कोलिशन \(Collision\)](#), उत्तरी अमेरिका (North America) में सबसे तेज़ी से बढ़ रही टेक कान्फ्रेंस है, यह “दुनिया के सबसे बढ़िया स्पीकरों”, टेक की मुख्य कंपनियों और टॉप मीडिया को इकट्ठे लाती है। यह तीसरी बार है, जब सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ग्लोबल कार्यक्रम में हिस्सा लेगी। 2021 में, इकोनॉमिक डिवेलपमेंट ऑफिस ने वर्चुअल (आभासी) कान्फ्रेंस में हिस्सा लिया था, जिसमें ब्राज़ील (Brazil) से भारत (India) तक, 141 देशों में 38,000 भागीदारों को ऑनलाइन और 1,200 स्टार्ट अप्स के समक्ष, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन को प्रदर्शित किया और ब्रैम्पटन के इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट (Innovation District) को उजागर किया तथा ग्लोबल दर्शकों के समक्ष, ब्रैम्पटन BHive (Brampton BHive) का प्रचार किया। 2019 में, सिटी के प्रतिनिधि, लिस्बन, पुर्तगाल (Lisbon, Portugal) गए और वेब समिट (Web Summit) में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने, ग्लोबल पैमाने पर सिटी के बेजोड़ निवेश अवसरों को उजागर करते हुए, 70,000 भागीदारों को “ब्रैम्पटन इज नाउ” के बारे में बताया।

ब्रैम्पटन में काउंटडाउन टू कोलिशन को न छोड़ें! 18 मई को द रोज़ थिएटर में मुफ्त कार्यक्रम के लिए, [यहां रजिस्टर करें \(Register here\)](#)। कोलिशन 2022 में सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के बारे में अधिक जानकारी के लिए, [investbrampton.ca/collision-2022](http://investbrampton.ca/collision-2022) पर जाएं।

**ब्रैम्पटन इनोवेशन मोबाइल (Brampton Innovation Mobile)**

ई.डी.ओ. स्ट्रीट्स पर आ रहा रहा है! काउंटडाउन टू कोलिशन के दौरान, टीम एक नई, पूरी तरह से रैप की हुई ब्रैम्पटन ट्रांज़िट की बस से पर्दा उठाने के लिए उत्साहित है, जो न केवल इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट और ब्रैम्पटन के स्टार्ट अप्स, फाउंडर्स और उद्यमियों के लिए उपलब्ध संसाधनों की रेंज में वृद्धि करने में मदद करेगी, बल्कि लोकल आउटरीच पहलकदमियों की हिमायत में भी मदद करेगी।

**हवाले**

“काउंटडाउन टू कोलिशन शुरू हो रहा है! पिछले वर्ष कोलिशन में सफलतापूर्वक प्रदर्शन करने के बाद, हम इस वर्ष भी दुनिया को यह दिखाने के लिए तैयार हैं कि ब्रैम्पटन क्या है। हम कैनेडा में एक बड़ा टेक हब बनने की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और हम कोलिशन में दूसरा रोमांचक वर्ष शुरू करने के लिए, चुने गए छह शहरों में से एक होने पर सम्मानित महसूस कर रहे हैं।”

- *पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“ब्रैम्पटन अवसरों का शहर है, जहां – हमारे इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट BHive जैसे संसाधनों के साथ – हमारे उद्यमी और स्टार्ट अप्स संपन्न हो सकते हैं। मैं हर किसी को सलाह देता हूं कि भविष्य को लेकर प्रेरित होने और जून के अंत में कोलिशन कान्फ्रेंस के लिए तैयारी करने हेतु, काउंटडाउन टू कोलिशन के लिए रजिस्टर करें।”

- *मार्टिन मेडेइरोस (Martin Medeiros), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 3 और 4; चेयर, इकोनॉमिक डिवेलपमेंट, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“काउंटडाउन टू कोलिशन, इस वर्ष के मुख्य समागम की उम्मीद में के लिए कैनेडा में अपना रास्ता बना रहा है और वे यहां ब्रैम्पटन में रुक रहे हैं, क्योंकि यह नवीनता, विचारों और अवसरों के लिए जगह है। आज ही अपनी मुफ्त टिकटें प्राप्त करें और वेस हॉल, आईज़ैक ओलोऑलाफे जूनियर और ब्रैम्पटन के अपने ही स्टार्ट-अप सुपरस्टार्स से प्रेरित हों।”

- *पॉल विसेंट (Paul Vicente), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; वाइस-चेयर, इकोनॉमिक डिवेलपमेंट, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन को, वेस हॉल, आईज़ैक ओलोऑलाफे जूनियर और काउंटडाउन टू कोलिशन कार्यक्रम की मेजबानी करने पर गर्व है। हमारा इकोनॉमिक डिवेलपमेंट ऑफिस, दुनिया को यह दिखाने के लिए तैयार है कि ब्रैम्पटन, उद्यम संबंधी जगह में एक बड़ा खिलाड़ी है और कोलिशन 2021 की सफलता के बाद, मैं यह देखने के लिए बेहद उत्साहित हूं कि इस वर्ष के कार्यक्रम में क्या होगा।”

- *पॉल मोरिसन (Paul Morrison), इंटरिम चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

**मीडिया संपर्क**

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया  
[multiculturalmedia@brampton.ca](mailto:multiculturalmedia@brampton.ca)